



ग्रामीण गांधी विद्यालयिक संचालित,  
महाराजा सवाजीराव गायकवाड

कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय,  
मालेगांव-कैम्प जि.नासिक



हिन्दी विभाग द्वारा आयोजित

मूल्यावधित पाठ्यक्रम

(Value Added Course)

“अनुवाद कला एवं व्यवहार”

(दिनांक: ०२ अगस्त २०२१ से ०९ सितंबर २०२१ तक)

प्रो.डॉ.जालिंदर इंगले  
हिन्दी विभागाध्यक्ष

डॉ.दिनेश शिरुडे  
प्रधानाचार्य

प्रा.दिपक आहिरे  
संयोजक

महात्मा गांधी यिद्यामंदिर संचालित,  
महाराजा सत्याजीराव गायकवाड  
**कला,विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय,**  
मालेगाव-कैप्प जि.नासिक

हिन्दी विभाग द्वारा आयोजित

मूल्यावधित पाठ्यक्रम

**(Value Added Course)**

**पाठ्यक्रम का विषय:- अनुवाद कला एवं व्यवहार**

**पाठ्यक्रम का उद्देश :**

१. अनुवाद कला कौशल को विकसित करना।
२. मौलिक लेखन की कला अवगत करना।
३. अनुवाद परम्परा से परिचित होना।
४. हिन्दीतर भाषा का अध्ययन करना।
५. अनुवाद प्रणाली अवगत करना।
६. अनुवाद के विविध आयामों से परिचित होना।

**अध्यापन पद्धति :**

१. व्याख्यान तथा विश्लेषण।
२. भाषा विषयक दृक्-श्राव्य माध्यमों का प्रयोग।
३. विषय विशेषज्ञ के व्याख्यान तथा समुह चर्चा।
४. प्रत्येक इकाई पर स्वाध्याय लेखन।
५. वैयक्तिक तथा समुह परियोजना।

## अनुवाद कला एवं व्यवहार

### पाठ्यक्रम

**इकाई एकः** अनुवाद स्वरूप और प्रकृति।

१. अनुवाद का अर्थ।
२. अनुवाद की परीभाषाएँ।
३. अनुवाद का स्वरूप।
४. अनुवाद और संप्रेषण।
५. अनुवादक के गुण।

**इकाई दोः** अनुवाद की प्रक्रिया।

१. पाठ विश्लेषण।
२. अंतरण।
३. पुनर्रचना।
४. अनुवाद के भाषिक स्तर।
५. अर्थातरण की प्रक्रिया।
६. स्रोत भाषा और लक्ष भाषा की तुलना।

## इकाई तीसः अनुवाद सिनान द्वा कला

१. अनुवाद को लिए सहायक साधन।
२. आदर्श अनुवादक।
३. अनुवाद की सिमाएँ।
४. हिंदी अनुवाद प्रशिक्षण।
५. अनुवाद के आधार-भाषा, विषय और विद्या।
६. अनुवाद को उद्देश।

## इकाई चारः अनुवाद के विविध आद्याग एवं मूल्यांकन

१. सरकारी कामकाज और अनुवाद।
२. सैशानिक साहित्य का अनुवाद।
३. विधिसाहित्य और अनुवाद।
४. समाचार पत्रों का अनुवाद।
५. मूल्यांकन

## परियोजना

- पाठ्यक्रम प्रवेश योग्यता - उच्च सांख्यिक इन्डियान के वर्षों  
अधिकारी बाहुदारी कक्षों तकीय
- पाठ्यक्रम की कालान्वयन - ३५ दिन  
(दि. ०२ अक्टूबर, २०२१ से ०१ निवारक, २०२१ तक)
- प्रतिदिन निर्धारित तात्त्विकाएँ - ११ (लाठ निर्दिश)

<u>इकाई एक</u> : अनुवाद तथ्य और प्रकृति	-	०६
<u>इकाई दो</u> : अनुवाद की प्रक्रिया	-	०७
<u>इकाई तीन</u> : अनुवाद विश्लेषण या कल्प	-	०८
<u>इकाई चार</u> : अनुवाद के विविध आवान एवं मूल्यांकन-	-	०९
स्वाध्याय लेखन/परियोजना	-	०३

---

कुल तात्त्विकाएँ - ३१